

दानह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के बाल स्वच्छता मिशन का शुभारंभ आज

■ दुधनी में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशासक
आशीष कुंद्रा, स्वास्थ्य सचिव संदीप कुमार, दानह
सांसद नटू पटेल मुख्य रूप से रहेंगे उपस्थित

सिलवासा 13 नवंबर असली आजादी संवाददाता। संघ प्रदेश ददरा एवं
नगर हवेली के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा की ओर से बाल स्वच्छता मिशन
का आज शुभारंभ किया जायेगा। यह कार्यक्रम आज सुबह 10 बजे दुधनी
के केन्द्रीय प्राथमिक स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्र में आयोजित होगा। बाल
स्वच्छता मिशन के शुभारंभ अवसर पर मुख्य रूप से प्रशासक आशीष कुंद्रा,
विकास आयुक्त एवं स्वास्थ्य सचिव संदीप कुमार, दानह सांसद नटू पटेल,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. वी. के. दास सहित चिकित्सा से जुड़े
अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी।